



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 457]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 11, 2019/अग्रहायण 20, 1941

No. 457]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 11, 2019/AGRAHAYANA 20, 1941

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

शुद्धिपत्र

मुम्बई, 5 दिसम्बर, 2019

गणपूर्ति

(i). श्री टी.एस. बालासुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

(नवम्बर, 2019 के 29वें दिन पारित)

**सं. टीएएमपी/15/2019-वीओसीपीटी.**—इस प्राधिकरण ने वी ओ चिदम्बरनार पत्तन न्यास (वीओसीपीटी) के दरमानों के सामान्य संशोधन के प्रस्ताव का निपटान करते हुए, 10 अक्तूबर, 2019 को आदेश संख्या टीएएमपी/15/2019-वीओसीपीटी पारित किया था। इस प्राधिकरण द्वारा संशोधित दरमान और निष्पादन मानक भारत के राजपत्र, असाधारण (भाग III, खंड 4) में 22 अक्तूबर, 2019 को राजपत्र संख्या 363 में अधिसूचित कराये गये।

2. वीओसीपीटी ने 31 अक्तूबर 2019 और 17 नवम्बर 2019 के अपने पत्रों के द्वारा यह उल्लेख किया कि वीओसीपीटी द्वारा प्रस्तावित दरमानों में कुछ टंकण सम्बंधी भूलें हैं। वीओसीपीटी ने, इसलिये, संशोधित दरमानों में सुधार कराना चाहा है।

3.1. इसलिये, यह शुद्धिपत्र इस प्राधिकरण द्वारा 10 अक्तूबर, 2019 को आदेश संख्या टीएएमपी/15/2019-वीओसीपीटी द्वारा अनुमोदित भारत के राजपत्र में 22 अक्तूबर 2019 के राजपत्र संख्या 363 में अधिसूचित हुए वीओसीपीटी के मौजूदा दरमानों में रह गयी अशुद्धियों का सुधार करने के लिये जारी किया जाता है। अशुद्धियों का ब्योरा और किये गये सुधार निम्नवत हैं:

क्रम सं .	22 10. 2019 को अधिसूचित वीओसीपी टी के दरमानों का संदर्भ	अधिसूचना में प्रकाशित	निम्नवत पढा जाये																								
(ii).	अनुसूची संख्या 3.2.2 - विलम्ब शुल्क प्रभार के नीचे टिप्पणी संख्या 10 की टिप्पणी	<p>(10). सीमाशुल्क द्वारा रोकी गयीं वस्तुयें: यह अवधि जिसके दौरान वस्तुएं मूल्यांकन की सामान्य प्रक्रिया को छोडकर विश्लेषणात्मक परीक्षा अथवा तकनीकी परीक्षणों के प्रयोजनार्थ सीमा शुल्क द्वारा रोकी जाती है और निर्यातक की ओर से कोई चूक अथवा लापरवाही न होने को सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है तब विलम्ब शुल्क प्रभार निम्नानुसार वसूल किये जायेंगे:</p> <table><tr><td>प्रथम 45 दिन</td><td>:</td><td>निशुल्क</td></tr><tr><td>46 दिन से 60 दिन</td><td>:</td><td>वास्तविक विलम्ब शुल्क प्रभार का 25%</td></tr><tr><td>61 दिन से 90 दिन</td><td>:</td><td>वास्तविक विलम्ब शुल्क प्रभार का 50%</td></tr><tr><td>90 दिन से इतर</td><td>:</td><td>वास्तविक विलम्ब शुल्क प्रभार का 100%</td></tr></table>	प्रथम 45 दिन	:	निशुल्क	46 दिन से 60 दिन	:	वास्तविक विलम्ब शुल्क प्रभार का 25%	61 दिन से 90 दिन	:	वास्तविक विलम्ब शुल्क प्रभार का 50%	90 दिन से इतर	:	वास्तविक विलम्ब शुल्क प्रभार का 100%	<p>(10). सीमाशुल्क द्वारा रोकी गयीं वस्तुयें: यह अवधि जिसके दौरान वस्तुएं मूल्यांकन की सामान्य प्रक्रिया को छोडकर विश्लेषणात्मक परीक्षा अथवा तकनीकी परीक्षणों के प्रयोजनार्थ सीमा शुल्क द्वारा रोकी जाती है और निर्यातक की ओर से कोई चूक अथवा लापरवाही न होने को सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा प्रमाणित किया जाता है तब विलम्ब शुल्क प्रभार निम्नानुसार वसूल किये जायेंगे:</p> <table><tr><td>प्रथम 45 दिन</td><td>:</td><td>निशुल्क</td></tr><tr><td>46 दिन से 60 दिन</td><td>:</td><td>वास्तविक विलम्ब शुल्क प्रभार का 25%</td></tr><tr><td>61 दिन से 90 दिन</td><td>:</td><td>वास्तविक विलम्ब शुल्क प्रभार का 50%</td></tr><tr><td>90 दिन से इतर</td><td>:</td><td>वास्तविक विलम्ब शुल्क प्रभार का 100%</td></tr></table> <p>45 दिन के पश्चात यथालागू उपयुक्त स्लैब पर दरमानों के अनुसार पूर्ण दर पर वस्तविक विलम्ब शुल्क निकाला जायेगा और उपर्युक्त रियायती दर पर उगाहा जाने वाला पूरा विलम्ब शुल्क लागू किया जायेगा।</p> <p>प्रथम 45 की गिनती निम्नवत की जायेगी:</p> <p>(i). यदि कार्गो निशुल्क दिनों की समाप्ति से पहले सीमाशुल्क द्वारा रोक लिया जाता है तो निशुल्क दिनों की समाप्ति के पश्चात प्रथम 45 दिन; और,</p> <p>(ii). यदि कार्गो विलम्ब शुल्क उपार्जित होने के बाद सीमाशुल्क द्वारा रोक लिया जाता है तो रोके जाने की तारीख से प्रथम 45 दिन।</p> <p>उक्त रियायतें प्राप्त करने के लिए रुकोनी प्रमाणपत्र माल की क्लीयरेंस की तारीख से छह महीने की अवधि में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।</p>	प्रथम 45 दिन	:	निशुल्क	46 दिन से 60 दिन	:	वास्तविक विलम्ब शुल्क प्रभार का 25%	61 दिन से 90 दिन	:	वास्तविक विलम्ब शुल्क प्रभार का 50%	90 दिन से इतर	:	वास्तविक विलम्ब शुल्क प्रभार का 100%
प्रथम 45 दिन	:	निशुल्क																									
46 दिन से 60 दिन	:	वास्तविक विलम्ब शुल्क प्रभार का 25%																									
61 दिन से 90 दिन	:	वास्तविक विलम्ब शुल्क प्रभार का 50%																									
90 दिन से इतर	:	वास्तविक विलम्ब शुल्क प्रभार का 100%																									
प्रथम 45 दिन	:	निशुल्क																									
46 दिन से 60 दिन	:	वास्तविक विलम्ब शुल्क प्रभार का 25%																									
61 दिन से 90 दिन	:	वास्तविक विलम्ब शुल्क प्रभार का 50%																									
90 दिन से इतर	:	वास्तविक विलम्ब शुल्क प्रभार का 100%																									

(ii).	अनुसूची 3.3: ढके हुए स्थान के लिये भंडारण प्रभार	क्रम संख्या	विवरण	इकाई	ज़ोन क की दरें (रु में)	क्रम संख्या	विवरण	इकाई	ज़ोन क की दरें (रु में)
		1	ढका हुआ स्थान			1	ढका हुआ स्थान		
			(i). प्रथम 15 दिन के लिये	प्रति 10 वर्ग मीटर/प्रति सप्ताह या उसका भाग	252.75		(i). प्रथम दो सप्ताह	प्रति 10 वर्ग मीटर/प्रति सप्ताह या उसका भाग	252.75
			(ii). 16 दिन से 30 दिन	- वही -	505.50		(ii). तीसरे और चौथे सप्ताह के लिये	- वही -	505.50
			(iii) 30 दिन से 45 दिन	- वही -	758.25		(iii). पांचवें और छठे सप्ताह के लिये	- वही -	758.25
			(iv). तत्पश्चात प्रत्येक 7 दिन के लिये	- वही -	884.61		(iv) तत्पश्चात प्रत्येक सप्ताह के लिये	- वही -	884.61
(iii).	अनुसूची 6.1 कार्गो प्रहस्तन प्रचालनों के लिए वी ओ सी पी टी , सी एच डी से लेबर की आपूर्ति के लिये लेवी	(दर रु में प्रति एम टी)				(दर रु में प्रति एम टी)			
		क्रम संख्या	विवरण	विदेशी पोत	तटीय पोत	क्रम संख्या	विवरण	विदेशी पोत	तटीय पोत
		3	नमक	50.00	18.00	3	नमक	50.00	30.00

3.2. उक्त शुद्धिपत्र इस प्राधिकरण द्वारा 10 अक्तूबर, 2019 को आदेश संख्या टीएएमपी/15/2019-वीओसीपीटी द्वारा अनुमोदित और भारत के राजपत्र में 22 अक्तूबर, 2019 के राजपत्र संख्या 363 में अधिसूचित हुए वीओसीपीटी के संशोधित दरमानों के प्रभावी होने की तारीख से प्रभावी हो गये हैं।

4. वीओसीपीटी को तदनुसार अपने दरमानों को संशोधित करने के सलाह दी जाती है।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./342/19]

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS  
CORRIGENDUM**

Mumbai, the 5th December, 2019

**QUORUM**

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

(Passed on this 29<sup>th</sup> day of November 2019)

**No.TAMP/15/2019-VOCPT.**—This Authority had passed an Order No.TAMP/15/2019-VOCPT dated 10 October 2019 disposing the proposal received from the V. O. Chidambaranar Port Trust (VOCPT) for general revision of its Scale of Rates (SOR). The revised SOR and Performance Standards approved by this Authority have been notified in the Gazette of India Extraordinary (Part III Section 4) on 22 October 2019 vide Gazette No.363.

2. The VOCPT vide its letters dated 31 October 2019 and 17 November 2019 have pointed out that there are some errors inadvertently crept in proposed SOR. The VOCPT has, therefore, sought corrections in the revised SOR.

3.1. Therefore, this corrigendum is issued to rectify the errors in the existing SOR of the VOCPT approved by this Authority vide Order No.TAMP/15/2019-VOCPT dated 10 October 2019 which was notified in the Gazette of India on 22 October 2019 vide Gazette No.363. The details of the errors and the corrections made are detailed below:

Sl. No.	Reference to the SOR of VOCPT notified on 22.10.2019	As appeared in the Notification	To be read as follows																								
(i).	Note under Note no.10 under Schedule No.3.2.2. - Schedule of Demurrage Charges	<p>(10). Goods detained by Customs: The period during which the goods are detained by the Commissioner of Customs for the purpose of analytical test or technical tests, other than ordinary process of appraisalment and certified by the Commissioner of Customs to be not attributable to any fault or negligence on the part of the Exporter, for such periods of detention, the demurrage charges shall be recovered as under:</p> <table><tr><td>First 45 days</td><td>:</td><td>Free</td></tr><tr><td>46 days to 60 days</td><td>:</td><td>25% of actual demurrage charges</td></tr><tr><td>61 days to 90 days</td><td>:</td><td>50% of actual demurrage charges</td></tr><tr><td>Beyond 90 days</td><td>:</td><td>100% of actual demurrage charges</td></tr></table>	First 45 days	:	Free	46 days to 60 days	:	25% of actual demurrage charges	61 days to 90 days	:	50% of actual demurrage charges	Beyond 90 days	:	100% of actual demurrage charges	<p>(10). Goods detained by Customs: The period during which the goods are detained by the Commissioner of Customs for the purpose of analytical test or technical tests, other than ordinary process of appraisalment and certified by the Commissioner of Customs to be not attributable to any fault or negligence on the part of the Exporter, for such periods of detention, the demurrage charges shall be recovered as under:</p> <table><tr><td>First 45 days</td><td>:</td><td>Free</td></tr><tr><td>46 days to 60 days</td><td>:</td><td>25% of actual demurrage charges</td></tr><tr><td>61 days to 90 days</td><td>:</td><td>50% of actual demurrage charges</td></tr><tr><td>Beyond 90 days</td><td>:</td><td>100% of actual demurrage charges</td></tr></table> <p>Actual demurrage charges at full rates shall be worked out as per Scale of Rates at the appropriate slab as applicable after 45 days and the concessional rate mentioned above shall be applied thereon the full demurrage charges leviable.</p> <p>The first 45 days shall be reckoned with as follows:</p> <p>(i). first 45 days after expiry of free days if cargo is detained by the Customs before expiry of free days; and,</p> <p>(ii). first 45 days from the date of detention if cargo is detained by the Customs after accrual of demurrage charges.</p> <p>The detention certificate for availing the above concession shall be submitted within a period of six months from the date of clearance of goods.</p>	First 45 days	:	Free	46 days to 60 days	:	25% of actual demurrage charges	61 days to 90 days	:	50% of actual demurrage charges	Beyond 90 days	:	100% of actual demurrage charges
First 45 days	:	Free																									
46 days to 60 days	:	25% of actual demurrage charges																									
61 days to 90 days	:	50% of actual demurrage charges																									
Beyond 90 days	:	100% of actual demurrage charges																									
First 45 days	:	Free																									
46 days to 60 days	:	25% of actual demurrage charges																									
61 days to 90 days	:	50% of actual demurrage charges																									
Beyond 90 days	:	100% of actual demurrage charges																									

(ii).	Schedule 3.3. Storage Fee for Covered Space:	<b>Sl. No.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Unit</b>	<b>Rates for Zone A (in `)</b>	<b>Sl. No.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Unit</b>	<b>Rates for Zone A (in `)</b>
		1	<b>COVERED SPACE</b>			1	<b>COVERED SPACE</b>		
			(i). For the first 15 days	Per 10 sq. mtr./week or part thereof	252.75		(i). For the first two weeks	Per 10 sq.mtr/ week or part thereof	252.75
			(ii). From 16 day to 30 day	-do-	505.50		(ii). For the third and fourth week	-do-	505.50
			(iii). From 31 day to 45 days	-do-	758.25		(iii). For the fifth and sixth week	-do-	758.25
			(iv). Thereafter for every 7 days	-do-	884.61		(iv). Thereafter for every subsequent week	-do-	884.61
		(Rate in ` Per MT)				(Rate in ` Per MT)			
(iii).	Schedule 6.1. Levy for supply of labour from VOCPT CHD for cargo handling operations	<b>Sl. No.</b>	<b>Description</b>	<b>Foreign vessel</b>	<b>Coastal Vessel</b>	<b>Sl. No.</b>	<b>Description</b>	<b>Foreign vessel</b>	<b>Coastal Vessel</b>
		3	Salt	50.00	18.00	3	Salt	50.00	30.00

3.2. The above Corrigendum may be deemed to have come into effect from the date the revised SOR approved by this Authority vide Order No.TAMP/15/2019-VOCPT dated 10 October 2019 which was notified in the Gazette of India on 22 October 2019 vide Gazette No.363 has come into effect.

4. The VOCPT is advised to amend its SOR accordingly.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Ext./342/19]